



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2005/अग्रहायण 4, 1927

No. 151]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2005/AGRAHAYANA 4, 1927

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

चण्डीगढ़, 21 नवम्बर, 2005

सं. ई3/पी.जी.आई./2005/7587.—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, विनियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है; अर्थात् :—

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ (संशोधन) विनियम, 2005 होगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ विनियम, 1967 की अनुसूची 1 के अन्तर्गत क्रम सं. 61 में मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	शक्तियों का विस्तार			टिप्पणियाँ	
		निदेशक	अध्यक्ष	शासी निकाय	संस्थान निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
61*	पदों पर नियुक्ति करने की शक्तियाँ (नियम 7 के अध्याधीन)					
	(ii) स्थायी	समूह "ग" और "घ" पद	समूह "ख" पद	समूह "क" पदों हेतु सम्पूर्ण शक्तियाँ	—	—

संस्थान के प्राधिकारी द्वारा

के. के. तलवार, निदेशक

[विज्ञापन-III/IV/86/2005-असा.]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम सं. सा.का.नि. 571 दिनांक 18-4-1967 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित थे तथा निम्नलिखित संख्या द्वारा संशोधित :

- भारत सरकार अधिसूचना संख्या ई. 1.54/69-एम.ई.-पी.जी.आई. दिनांक 24-2-1970
- भारत सरकार अधिसूचना संख्या 1.56/69-एम.ई.-(पी.जी.) दिनांक 26-3-1970

3. भारत सरकार अधिसूचना दिनांक 11-3-1974
4. पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या एफ. 3/एन.एफ. 8(1)-76 दिनांक 18-5-1976
5. सा.का.नि. अधिसूचना संख्या ई 1(1)-पी.जी.आई.-76 दिनांक 14-9-1976
6. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17011/1/77-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 9-5-1978 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित सा.का.नि. अधिसूचना संख्या ई. 3/एन.एफ./78 दिनांक 18-5-1978
7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17011/1/82-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 23-3-1984 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना दिनांक 15-6-1984
8. पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई3/एन.एफ./7(2), 80 दिनांक 15-6-1984
9. पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 3/एन.एफ./84-6804 दिनांक 15-6-1984
10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17011/3/84-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 17-12-1984 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 3/एन.एफ./84/74438 दिनांक 26-12-1984
11. भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना दिनांक 26-12-1984
12. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना संख्या बी. 17011/4/85-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 13-9-1985
13. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या 17011/4/85-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 17-10-1985 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 3/एन.एफ./85/-61/505 दिनांक 17-10-1985
14. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी 17011/2/88-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 9/16-8-1989 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 3/एन.एफ./7(2)/88 दिनांक 12-9-1989
15. पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या 31/2-टी.आर.जी.-68/4476-4527 दिनांक 23-1-1996
16. पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 3/एफ.सी.आई. (10)/1101 दिनांक 5-5-1997
17. केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन दिनांक 30-11-1998 सहित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 715(अ) पी.जी.आई.-एम.ए.-98/31599 दिनांक 30-11-1998
18. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनांक 23-2-1999 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित अधिसूचना संख्या, सा.का.नि. 152(अ) पी.जी.आई.-एन.ए.-99/4795 दिनांक 24-2-1999
19. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17020/24/95-एम.ई. (पी.जी.) /एम.ई.-डेस्क-2 दिनांक 12-3-2001 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 3/एन.एफ./2001/पी.जी.आई./722 दिनांक 22-3-2001
20. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी 17020/5/2000-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 12-3-2001 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 3/एन.एफ./2001/पी.जी.आई./4990 दिनांक 30-3-2001
21. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17020/21/2000-एम.ई. (पी.जी.) /(भाग II)/, दिनांक 15-5-2002 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 3/पी.जी.आई./2002/2748 दिनांक 10-6-2002
22. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17020/48/2000-एम.ई. डेस्क-II, दिनांक 8-7-2002 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या ई 3/2002/4056 दिनांक 30-7-2002

POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH NOTIFICATION

Chandigarh, the 21st November, 2005

No. E3/PGI/2005/7587.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 32 of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (51 of 1966), the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following

regulations further to amend the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Regulations, 1967 namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Amendment) Regulations, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Regulations, 1967, in the Schedule I in Sr. No. 61 for item (ii), the following shall be substituted namely :—

Sr. No.	Nature of powers	Extent of Powers				Remarks
		Director	President	Governing Body	Institute Body	
1	2	3	4	5	6	7
61.*	Powers to make appointment to posts (subject to Rule-7).					
	(ii) Permanent	Group 'C' and 'D' posts	Group 'B' posts	Fell powers for Group A posts		

By the authority of the Institute

K. K. TALWAR, Director

[ADVT-III/IV/86/2005/Exty.]

Foot-note : Principal regulations were published in the Gazette of India *vide* No. G.S.R. 571 dated 18-4-1967 and amended *vide* Nos.

1. G.O.I. Notification No. E 1. 54/69 ME-PGI date 24-2-1970
2. G.O.I. Notification No. 1.56/69-ME (PG) date 26-3-1970
3. G.O.I. Notification date, 11-3-1974
4. P.G.I. Notification No. F. 3/NF. 8(i)-76 dated 18-5-1976
5. G.S.R. Notification No. E.I.(I)-PGI-76 dated 14-9-1976
6. G.S.R. Notification No. E 3/NF/78 dated 18-5-1978 with the approval of G.O.I. *vide* MHFW letter No. V. 17011/1/77-ME (PG) dated 9-5-1978
7. P.G.I. Notification dated 15-6-1984 with the approval of G.O.I. *vide* MHFW letter No. V.17011/1/82-ME (PG) dated 23-3-1984
8. P.G.I. Notification No. E 3/NF/7(ii), 80 dated 15-6-1984
9. P.G.I. Notification No. E 3/NF/84-6804 dated 15-6-1984
10. P.G.I. Notification No. E 3/NF/84/74438 dated 26-12-1984 with the approval of G.O.I. *vide* MHFW letter No. V.17011/3/1984-ME (PG) dated 17-12-1984
11. P.G.I. Notification dated 26-12-1984 with the approval of G.O.I.
12. G.O.I. MOHFW Notification No. V.17011/4/85-ME (PG) dated 13-9-1985
13. P.G.I. Notification No. E 3/NF/85/61505 dated 17-10-1985 with the approval of G.O.I. *vide* MHFW letter No. 17011/4/84-ME (PG) dated 17-10-1985
14. P.G.I. Notification No. E 3/NF/7(ii)/88 dated 12-9-1989 with the approval of G.O.I. *vide* MHFW letter No. V.17011/2/88-ME (PG) dated 9/16-8-1989
15. P.G.I. Notification No. 31/2-Trg.-68/4476-4527 dated 23-1-1996

16. P.G.I. Notification No. E 3/FCI(10)/1101 dated 5-5-1997
17. Notification No. G.S.R. 715(E)-PGI-MA-98/31599 dated 30-11-1998 with Central Government approval dated 30-11-1998
18. Notification No. G.S.R. 152(E) P.G.I.-MA-99/4795 dated 24-2-1999 with the approval of G.O.I. *vide* MHFW letter dated 23-2-1999
19. P.G.I. Notification No. E 3/NF/2001/PGI/722 dated 22-3-2001 with the approval of G.O.I. *vide* MHFW letter No. V.17020/24/95-ME (PG)/ME Desk-II dated 12-3-2001
20. P.G.I. Notification No. E 3/NF/2001/PGI/4990 dated 30-3-2001 with the approval of G.O.I. *vide* MHFW letter No.V.17020/5/2000-ME (PG) dated 12-3-2001
21. P.G.I. Notification No. E 3/P.GI/2002/2748 dated 10-6-2002 with the approval of G.O.I. MOHFW, letter No. V. 17020/21/2000-ME (PG) (Part-II), dated 15-5-2002
22. P.G.I. Notification No. E 3/2002/4056 dated 30-7-2002 with the approval of G.O.I. MOHFW, letter No. V.17020/48/2000-ME Desk-II, dated 8-7-2002.